

## पाठ - 4 दीवानों की हस्ती

### सार-आधारित प्रश्न (Extract Based Questions)

1) हम दीवानों की क्या हस्ती,  
हैं आज यहाँ, कल वहाँ चले,  
मस्ती का आलम साथ चला,  
हम धूल उड़ाते जहाँ चले।  
आए बन कर उल्लास अभी,  
आँसू बन कर बह चले अभी,  
सब कहते ही रह गए, अरे,  
तुम कैसे आए, कहाँ चले?

प्रश्न 1. 'दीवानों' किस प्रकार के व्यक्तियों को कहा गया-

- (क) अवारा व्यक्तियों को
- (ख) मनमौजी व्यक्तियों को
- (ग) सनकी व्यक्तियों को
- (घ) सुन्दर व्यक्तियों को

प्रश्न 2. धूल उड़ाकर चलने का अर्थ होगा?

- (क) निश्चित होकर चलना
- (ख) हाथों से धूल उड़ाना
- (ग) मुंह से धूल उड़ाना
- (घ) मस्ती में डूबकर चलना

प्रश्न 3. दीवानों का हृदय कैसा होता है?

- (क) भावुक
- (ख) संवेदनशील
- (ग) कठोर
- (घ) संवेदनशील व भावुक

प्रश्न 4. दीवानों के जाने पर लोग दुखी क्यों होते हैं?

- (क) वो थोड़े समय में ही सबसे आत्मीयता बना लेते हैं।
- (ख) क्योंकि वो दूसरों को पीड़ा देते हैं
- (ग) क्योंकि लोग उनसे दुखी थे
- (घ) लोग उनके स्वार्थ से दुखी थे

2) किस ओर चले? यह मत पूछो,  
चलना है, बस इसलिए चले,  
जग से उसका कुछ लिए चले,  
जग को अपना कुछ दिए चले,  
दो बात कही, दो बात सुनी।  
कुछ हँसे और फिर कुछ रोए।  
छककर सुख-दुख के घूँटों को  
हम एक भाव से पिए चले।

प्रश्न 1. उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए।

- (क) गद्यांश के पाठ का नाम- ध्वनि, लेखक- सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'।
- (ख) गद्यांश के पाठ का नाम- बस की यात्रा, लेखक का नाम- हरिशंकर परसाई।
- (ग) गद्यांश के पाठ का नाम- भगवान के डाकिए, लेखक- रामधारी सिंह दिनकर।
- (घ) गद्यांश के पाठ का नाम- दीवानों की हस्ती, लेखक- भगवतीचरण वर्मा।

प्रश्न 2. मनमौजी व्यक्ति किस ओर चलता है ?

- (क) जहाँ उसका मन होता है वहाँ
- (ख) उत्तर की ओर
- (ग) पूरब की ओर
- (घ) जिधर सभी लोग गए हों

प्रश्न 3. मनमौजी व्यक्ति संसार को क्या देता है ?

- (क) सुख
- (ख) धन
- (ग) दुःख
- (घ) खुशी

प्रश्न 4. मनमौजी व्यक्ति कब रोता है ?

- (क) जब उसका दिल दुखता है
- (ख) जब स्वयं दुखी होता है
- (ग) जब कोई उसे कुछ कड़वी बात बोलता है
- (घ) जब दूसरों को दुखी देखता है

प्रश्न 5. 'छककर सुख-दुःख पीने' का क्या अर्थ है ?

- (क) दुख में दुखी होना
- (ख) सुख के दिनों में प्रसन्न होना
- (ग) सदा सुख के बारे में सोचते रहना
- (घ) सुख-दुःख दोनों स्थितियों में एक जैसा रहना

3) हम भिखमंगों की दुनिया में,  
स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले,  
हम एक निसानी – सी उर पर,  
ले असफलता का भार चले।  
अब अपना और पराया क्या?  
आबाद रहें रुकने वाले!  
हम स्वयं बँधे थे और स्वयं  
हम अपने बँधन तोड़ चले।

प्रश्न 1. भिखमंगों की दुनिया किस प्रकार की है ?

- (क) भिखमंगे अजीब होते हैं
- (ख) भिखमंगे बहुत विचित्र होते हैं
- (ग) भिखमंगे दया नहीं करते
- (घ) भिखमंगे लेना जानते हैं, देना नहीं

प्रश्न 2. प्यार को क्या कहा है ?

- (क) उन्नति में रुकावट
- (ख) बंधन से मुक्ति
- (ग) अनियंत्रित साया
- (घ) स्वच्छंद

प्रश्न 3. 'आबाद' शब्द का क्या अर्थ है?

- (क) प्यार
- (ख) बसना
- (ग) मुराद
- (घ) भाग्य

प्रश्न 4. रुकने वाले कौन हैं?

- (क) जो दयालु व्यक्ति नहीं हैं
- (ख) जो भिखमंगे होते हैं
- (ग) जो सांसारिकता में फँसे पड़े हैं

(घ) जो दूसरों का कहना नहीं मानते हैं

## बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions)

प्रश्न 1. 'दीवानों की हस्ती' कविता के कवि का नाम बताइए।

- (क) भगवतीचरण वर्मा
- (ख) रामधारी सिंह 'दिनकर'
- (ग) रामदरश मिश्र
- (घ) सूर्यकांत त्रिपाठी निराला

प्रश्न 2. दीवानों के साथ-साथ क्या चलता है?

- (क) धन
- (ख) दर्द
- (ग) मस्ती का आलम
- (घ) स्वार्थ

प्रश्न 3. दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं?

- (क) हवाई जहाज
- (ख) धूल
- (ग) पतंग
- (घ) तिरंगा

प्रश्न 4. दीवाने क्या बनकर आते हैं?

- (क) हताश
- (ख) रस
- (ग) उल्लास
- (घ) राग

प्रश्न 5. 'आलम' शब्द का क्या अर्थ है?

- (क) दुनिया
- (ख) जमाना
- (ग) नगर
- (घ) शहर

प्रश्न 6. दीवाने संसार को क्या लुटाते हैं?

- (क) धन
- (ख) ज्ञान
- (ग) प्यार
- (घ) ममता

प्रश्न 7. 'स्वच्छंद' शब्द का क्या अर्थ है?

- (क) गौरव
- (ख) स्वतंत्र
- (ग) बड़ा
- (घ) अपना छंद

प्रश्न 8. दीवाने अपने हृदय पर कैसी निशानी ले जाते हैं?

- (क) प्रसन्नता
- (ख) निराशा
- (ग) असफलता
- (घ) सफलता

प्रश्न 9. 'छककर' शब्द का क्या अर्थ है?

- (क) तृप्त होकर
- (ख) मग्न होकर
- (ग) लेकर
- (घ) सोकर

प्रश्न 10. कवि ने रुकने वाले किसे कहा है?

- (क) जो चलते नहीं
- (ख) जो एक स्थान पर खड़े हैं
- (ग) ठहरे हुए
- (घ) देशवासियों को

एक वाक्य में उत्तर दीजिए

प्रश्न 11. दीवानों को किसने बाँधा था?

प्रश्न 12. वे किस रूप में बह चलते हैं?

प्रश्न 13. 'उर' शब्द का क्या अर्थ है?

प्रश्न 14. दीवानों का हृदय कैसा होता है?

प्रश्न 15. दीवानों के जाने पर लोग दुखी क्यों होते हैं?